



गौरवशाली भारत

मुख्य अपडेट

पेज 3

गांजा तस्कर ने हेड कास्टेबल पर किया हमला, लूटा मोबाइल, साथ चलने को कहा तो हेड कास्टेबल पर बोल दिया हमला

पेज 5

योगी चुने गये उप भाजपा विधायक दल के नेता, कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

पेज 7

फैनो ने रुपी, बेलासी एथलीटों को 2022 विश्व तेरामी वैश्वनिशप से किया प्रतिवर्धित

वर्ष : 11

अंक : 252

पृष्ठ : 08

नई दिल्ली

शुक्रवार 25 मार्च 2022

मूल्य : 1.50/-

RNI No .DELHIN/2011/38334

बीरभूम हिंसा के पीड़ितों से मिली ममता

घटना के 72 घंटे बाद पहुंची सीएम; फूट-फूटकर घोते आदमी को पानी पिलाया



कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जैन-भूम में हिंसा पीड़ित परिवारों से मिले पहुंची। ममता ने पीड़ितों से हमर्दी दिखाई तो उनका दद्दे आंखों से छलक उठा। ममता ने किसी आपे को तह रोते हुए शख्स का पानी पिलाया और उसके आंखों पोछे।

ममता ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजन को 5 लाख रुपया का चेक दिया। इसके साथ ही कांगड़ा की आग में जल चुके घरों को सुधारने के लिए 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे। ममता लाले 10 लोगों के परिवारों को नौकरी दी जाएंगी। ममता ने कहा कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि लोग भाग गए।

मैं चाहती हूं कि घटाना के लिए जिमेंटर लोगों को गिरफतार किया जाए। और उसके लिए याले पुलिसकर्मियों को सजा मिले। यालों को पुलिस सुखाया दी जाए।

ममता के दौरे पर बीजेपी का तंज- शर्व खारीदाना घाही है स्थान

वहां अब ममता बनर्जी के बीरभूम दौरे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सकारात्मक मजबूत ने कहा कि सीएम ममता

गवर्नर जगदीप धनखड़े कहा कि यह एक शर्मनाक घटना है। जो सरकार पर लगा नहीं किया तो उसकार कइस तरह पर गौर रखा जाए। लोकतंत्र में लोगों को इस तरह से जिंदा जलाना बहुत दर्दनाक होता है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह सबक सोचे।

स्वागत में होड़िंग लगे तो लोग बोले- दुख बांटने आ रही ममता या प्रधारे के लिए

टीएमसी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कंद्रीप गृह में ममता के स्वागत में तोरण लगाते हुए लोगों का एक बीड़ियों समाने आया है। जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया है। घटाना को देखते हुए पीछम बांगल के घटानाल को छोड़ते हुए लोगों को खाने दी जाए। उन्होंने ममता को खाने दी जाए। लोग बीड़ियों-फोटो शेयर कर पछाड़ रहे हैं कि थोड़ी भी शर्म है ममता दीदी को, तो स्वागत बोर्ड हटाना दें। संसदीय व्यवस्था के खिलाफ है। संसदीय व्यवस्था खतरे में है।

कर्नाटक में नया विवाद: मंदिरों के बाहर बैनर

लगाकर गैर हिंदुओं से दुकानें न लगाने को कहा

प्रशासन बोला- यह हमारा आदेश नहीं

बैंगलुरु। कर्नाटक में अभी हिंसा विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा है कि यहां एक समुदाय विशेष के खिलाफ लालार्ग गए पोस्टर्स चर्चा में हैं। यहां एजेंसी के मुताबिक, कर्नाटक के कई मंदिरों में एक विवाहित बैनर लगाया गया है, जिसमें मुस्लिम संगठनों से मंदिरों के पास लगाने वाले मेलों में उत्तमान या स्टॉल न लगाने की बात लिखी है।



हालांकि, मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाली कमेटियों ने ऐसे किसी भी आदेश से इकाकर किया है। वर्षी, राज्य के अप्यसंस्थक आयोग के अध्यक्ष अब्दुल अजीम ने वृथावार को कहा कि गैर-हिंदुओं को दुकानें न लगाने वाले देने के बारे में मंदिर प्रशासन के लिए उत्तर चल रही है, मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा।

बैनरों के पीछे दक्षिणांतरी सूकूह

मंदिर कमेटियों के इनकार के बाद इन बैनर्स को लगाने वालों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि, मौद्दिया रिपोर्टर्से के पुताहिक, इनके पीछे राइट विंग यारी के संख्याएँ हिंदू-सूकूह के सदस्य ही सकते हैं। दक्षिणांतरी सूकूहों का मानना ही कि हिंसा विवाद पर कार्रवाई के फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों को दुकानें बंद करने की आयोजना की जाएगी। इसमें मुस्लिम संगठनों को जारी की जाएगी। अतः यहां भी इसी तरह के बैनर लगाए गए हैं। मंदिर के चारों तरफ बैनर लगाए गए हैं, जिनमें केवल हिंदुओं को ही दुकान और स्टॉल लगाने से रोका गया है। इधर, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अब्दुल अजीम ने कहा कि इस मामले को मंदिर प्रशासन के बैठकर जल्द सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह लोगों से रोका गया था। उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में एक राजकार्यालय बैनर कर देकर लगाए हैं। यहां अलग-अलग धर्म लोग अपना कारोबार चलाते हैं।

20 अप्रैल से दुर्गापूर्णमेरेशी नदिर का गोला

कर्नाटक के मैंगलोर जिले के पास

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

मामले को तुल पकड़ता देख मंदिर

पर योगी नहीं

शार्ट न्यूज़

राष्ट्रीय दुर्गादास राठोर के नाम से जाना

जाएगा निनार के लकड़ी वाले पुल का चौहाहा

नई दिल्ली। उत्तरी नगर निगम के त्रिनगर के लकड़ी वाले पुल के चौहाहे को अब राष्ट्रीय दुर्गादास राठोर के नाम से जाना जाएगा। इस नामकरण कार्य का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के ओबीपी मोर्चा के राष्ट्रीय मरमांजी एवं संसद संगम तालुक गुप्ता ने किया। अतिथि भाजपा पूर्वचल मोर्चा के प्रदेश मंत्री एस राहुल, प्रान्तिक राठोर समाज अध्यक्ष वासुदेव राठोर थे। इसके पूर्व दाताराम पांडे में आयोजित कार्यक्रम में संगमलाल गुप्ता ने कहा कि वीर दुर्गादास राठोर ने बहुत ही बहादुरी के साथ मरमांजी को मुक्त से मुक्त करवाया था। दुर्गादास ने तो राजा थे ना कोइं सेनापति और ना ही कोई सामंत लेकिन उन्होंने अपने युद्ध कौशल से आयोजित चारूओं से ओरेंजेब व सामावड़ को मुक्त करवा दिया था। वीर सिरोमण राष्ट्रीय दुर्गादास राठोर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिये वीरा, देशप्रेम, बलिदान, त्याग व स्वामिधर्ति के प्रेरणा व आदर्श बने रहे। प्रदेश मंत्री एस राहुल ने कहा कि समाज की अनेकों विभिन्नियों ने देश हित में अपना सर्वत्र समर्पित किया है। कार्यक्रम के संयोजक राठोर साहू समाज धर्मार्थ संस्थान के महामंत्री पचान राठोर व अध्यक्षता नियम पालन मंत्र उपर संज्ञा दी नी किया। मौके पर प्रमोद राठोर, प्राचीर्य जारी, समस्वेद साहू अदि मौजूद रहे।

शारी के पंडाल में लगी नीषण आग

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में गुरुवार को एक शारी समारोह के लिए बने पंडाल में भीषण आग लग गई। आग इनी भयंकर रही कि आसमान पर काले धूएं की काला गुरुवार दिखाई दे रहा है। सूखा पर घटनास्थल पहुंचे दमकते की गाड़ी ने आग पकड़ा और लिया। अब हाँ, इस घटना से किसी के हतोत्तर होने की खबर नहीं। जनकरी के अनुसार, यह आग गुरुवार दोपहर करीब दो बजे रोहिणी के सेक्टर-22 में लगी। तेज हवा के कारण लकड़ी के बने पंडाल में आग तेजी से फैल गई। पंडाल पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। आग लगाने के कारण अपी स्पष्ट नहीं है। घटना स्थल के आसपास काले धूएँ का गुरुवार उठाए देखा जा सकता है। दमकल विभाग अपने एक वर्षीय अधिकारी ने कहा कि सीएनी पंपे के पास स्थित एक बैंकेट हॉल में आग लग गई। उन्होंने कहा कि हाँ एक फार स्टरेशन के पास स्थित और आपने धूम-धारी टीवी वार्ता से धूम-धारी देख लिए फार पहुंचे। दो कारों और एक बालक में आग लग गई।

हम जारी करेंगे कि गर्मी कम होने के बाद कोई अंदर फास्टों तो नहीं था।

घाट हजार बच्चों ने टीका लगाया

गुरुवार। जिले में गुरुवार को 154 केंद्रों पर लगाएं को कोरोनारोधी टीका लगाया गया। इन केंद्रों पर कुल 6995 लोगों ने संक्रमण रोधी टीका लगाया, जिनमें से 4717 लोगों ने फहनी ढोज और 508 लोगों ने दूसरी ढोज लगाया। टीका लगाने वालों में 12 से 15 वर्ष आयु के बीच के 4192 बच्चे भी शामिल हो रहे। इन सभी को टीके की फहनी ढोज लगी। गुरुवार को 15 से 18 वर्ष आयु के बीच के 745 किशोरों की भी टीकाकरण हुआ। 1275 किशोरों में पहनी ढोज और 470 किशोरों ने दूसरी ढोज लगाई। इसी तरह 18 वर्ष से ऊपर आयु के 1478 लोगों की भी संख्या बढ़कर 26063 रपर पहुंच गई। रात है इस बात को संविधान पर भरोसा नहीं है। यही बजह है कि कि चुनाव आयोग पर दबाव डालकर दिल्ली नगर निगम के चुनाव टलवा दिए। अरविंद केरियावाल ने कहा कि चुनाव बड़े भगत सिंह के साथ ठीक होने वाले लगाए की कुल संख्या बढ़कर 259388 हो गई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में अब 238 रह गई है। इनमें से 237 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक को घराने के लिए घराने के लिए उपर्युक्त आयोग को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ जिले में गुरुवार को कोरोना रोधी वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 लाख 30 हजार 820 पर पहुंच गया।

कोरोना संक्रियत 48 नए मरीज निले

गुरुवार। जिले में गुरुवार को 48 नए मरीज मिले। इसी के साथ संक्रियत मरीजों की संख्या बढ़कर 26063 रपर पहुंच गई। रात है इस बात को संविधान पर भरोसा नहीं है। यही बजह है कि कि चुनाव आयोग पर दबाव डालकर दिल्ली नगर निगम के चुनाव टलवा दिए। अरविंद केरियावाल ने यह बातें दिल्ली के संविधान सभा व जर्मनी के दूरभासरों में दोनों वर्षों के बीच बढ़ाया। इसके बाद चुनाव आयोग को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ ठीक होने वाले लगाए की कुल संख्या बढ़कर 259388 हो गई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में अब 238 रह गई है। इनमें से 237 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक को घराने के लिए उपर्युक्त आयोग को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ अपनी चारों जीवनी की संख्या बढ़ाया। इसमें से 24 घंटे में किसी संक्रियत मरीजों की मात्र नहीं हुई। वर्षों 59 मरीज गुरुवार को कोरोना को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ ठीक होने वाले लगाए की कुल संख्या बढ़कर 259388 हो गई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में अब 238 रह गई है। इनमें से 237 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक को घराने के लिए उपर्युक्त आयोग को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ अपनी चारों जीवनी की संख्या बढ़ाया। इसमें से 24 घंटे में किसी संक्रियत मरीजों की मात्र नहीं हुई। वर्षों 59 मरीज गुरुवार को कोरोना को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ ठीक होने वाले लगाए की कुल संख्या बढ़कर 259388 हो गई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में अब 238 रह गई है। इनमें से 237 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक को घराने के लिए उपर्युक्त आयोग को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ अपनी चारों जीवनी की संख्या बढ़ाया। इसमें से 24 घंटे में किसी संक्रियत मरीजों की मात्र नहीं हुई। वर्षों 59 मरीज गुरुवार को कोरोना को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ ठीक होने वाले लगाए की कुल संख्या बढ़कर 259388 हो गई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में अब 238 रह गई है। इनमें से 237 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक को घराने के लिए उपर्युक्त आयोग को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ अपनी चारों जीवनी की संख्या बढ़ाया। इसमें से 24 घंटे में किसी संक्रियत मरीजों की मात्र नहीं हुई। वर्षों 59 मरीज गुरुवार को कोरोना को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ ठीक होने वाले लगाए की कुल संख्या बढ़कर 259388 हो गई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में अब 238 रह गई है। इनमें से 237 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक को घराने के लिए उपर्युक्त आयोग को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ अपनी चारों जीवनी की संख्या बढ़ाया। इसमें से 24 घंटे में किसी संक्रियत मरीजों की मात्र नहीं हुई। वर्षों 59 मरीज गुरुवार को कोरोना को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ ठीक होने वाले लगाए की कुल संख्या बढ़कर 259388 हो गई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में अब 238 रह गई है। इनमें से 237 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक को घराने के लिए उपर्युक्त आयोग को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ अपनी चारों जीवनी की संख्या बढ़ाया। इसमें से 24 घंटे में किसी संक्रियत मरीजों की मात्र नहीं हुई। वर्षों 59 मरीज गुरुवार को कोरोना को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ ठीक होने वाले लगाए की कुल संख्या बढ़कर 259388 हो गई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में अब 238 रह गई है। इनमें से 237 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक को घराने के लिए उपर्युक्त आयोग को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ अपनी चारों जीवनी की संख्या बढ़ाया। इसमें से 24 घंटे में किसी संक्रियत मरीजों की मात्र नहीं हुई। वर्षों 59 मरीज गुरुवार को कोरोना को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ ठीक होने वाले लगाए की कुल संख्या बढ़कर 259388 हो गई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में अब 238 रह गई है। इनमें से 237 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक को घराने के लिए उपर्युक्त आयोग को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ अपनी चारों जीवनी की संख्या बढ़ाया। इसमें से 24 घंटे में किसी संक्रियत मरीजों की मात्र नहीं हुई। वर्षों 59 मरीज गुरुवार को कोरोना को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ ठीक होने वाले लगाए की कुल संख्या बढ़कर 259388 हो गई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में अब 238 रह गई है। इनमें से 237 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक को घराने के लिए उपर्युक्त आयोग को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ अपनी चारों जीवनी की संख्या बढ़ाया। इसमें से 24 घंटे में किसी संक्रियत मरीजों की मात्र नहीं हुई। वर्षों 59 मरीज गुरुवार को कोरोना को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ ठीक होने वाले लगाए की कुल संख्या बढ़कर 259388 हो गई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में अब 238 रह गई है। इनमें से 237 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक को घराने के लिए उपर्युक्त आयोग को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ अपनी चारों जीवनी की संख्या बढ़ाया। इसमें से 24 घंटे में किसी संक्रियत मरीजों की मात्र नहीं हुई। वर्षों 59 मरीज गुरुवार को कोरोना को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ ठीक होने वाले लगाए की कुल संख्या बढ़कर 259388 हो गई। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में अब 238 रह गई है। इनमें से 237 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक को घराने के लिए उपर्युक्त आयोग को मात्र देकर स्वस्थ भी हो गया। इसी के साथ अपनी चारों जीवनी की संख्या बढ़ाया। इसमें से 24 घंटे में किसी संक्रियत मरीजों की मात्र नहीं हुई। वर्षों 59 मरीज

शार्ट न्यूज़

शैक्षिक संस्थान पर छापा, 27 लाख की नकदी और 3/90 करोड़ के आमूषण

नयी दिल्ली। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में शैक्षिक संस्थानों का संचालन करने वाले एक प्रमुख नेवर्कर पर आयकर विभाग द्वारा की गयी आपेक्षाएँ में 27 लाख रुपये की नकदी और 3/90 करोड़ रुपये के आमूषण जबकि किये गये हैं। विभाग ने आज यहां जारी बोराम में कहा कि यह 14 मार्च को एक साथ 25 स्थानों पर यह छापेमारी की गयी थी। तलाश के दौरान ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे पता चलता है कि ट्रस्ट की धनराशि का समूह के प्रवर्तकों ने व्यक्तिगत लाभों के लिए उपयोग किया है और आयकर कानून की धारा के तहत ट्रस्ट को मिली छुट्टी का दुरुपयोग किया गया है। यह भी पता चला है कि प्रवर्तकों के अंदर ही ऋण मुक्त करने का ताजा है। तलाश के दौरान ऐसे प्रमाण मिले हैं कि एकपीओ के बाद अब यह कंपनी अप्रैल 2022 में शुद्ध रुप से एक 'ऋण मुक्त' बना दी जाएगी। हम इस एकपीओ से कंपनी पर जो भी टालून (सावधिक कर्ज) हैं उसे चुका देंगे। रुचि सोया का एकपीओ आम लोगों के लिए 24-28 मार्च तक खुला रहेगा।

5.5 अरब डॉलर के नोबाइल फोन निर्यात

नयी दिल्ली। देश को मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का वैश्विक कंदन बनाने की केंद्र स्वरकर की कोशिशों से चालू वित्र वर्ष में भारत निर्मित मोबाइल फोन का निर्यात 75 प्रतिशत बढ़कर 5.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के शीर्ष संगठन इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसियेशन द्वारा आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020-21 में 3.16 अरब डॉलर के मोबाइल फोन निर्यात हुआ था जो चालू वित्र वर्ष में बढ़कर 5.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। संगठन ने कहा कि एक अप्रैल 2020 से लागू स्पॉटीलाइन पीएलआई प्रत्यक्षित दृष्टि से आरंभ लिया है। अब इस लेवल में भारत का वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ने लगी है। वर्ष 2020 में कोरोना की लहरों के कारण अनिवार्यता में की गयी शुरूआत में वर्ष 2021 में स्थिरता आई है और अब उसका प्रतिशत मिलने लगा है जो अनुमान की भी पार कर गया है। संगठन ने कहा कि स्पॉटीलाइन पीएलआई से पांच वैश्विक कंपनियों सेंसर्समें, फॉकसकॉर्ट को आमूषण के साथ ही भारतीय कंपनियों लाए, माइक्रोफोन्स (भगवती), पेडोट इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटीलीय नियोल्स्प्रॉस और आर्टिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक्स ने स्पॉटीलाइन का विनिर्माण शुरू किया है। पांच वर्षों की इस स्क्रीम में कंपनियों के 10.5 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन का अनुमान है जिसमें निर्यात की हिस्सेदारी 6.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस अवधि में आरंभ लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है जिसमें दो लाख प्रत्यक्ष और छह लाख अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल है।

शक्कर में खट्टी, खोपा गोला नरम, खाद्य तेलों में गिरावट, दलहन मजबूत, दाल सस्ती, घावल उत्तर बढ़ा

इंदौर। सियांग निरामा बाजार में शक्कर में खट्टी दी गई है। खोपा गोला के भाव कम हुए। खाद्य तेलों में गिरावट दर्ज की गई। आज सोयाबानी रिफाइनरी, ग्रामीण और पेग्गार्न के साथ ही भारतीय कंपनियों लाए, माइक्रोफोन्स (भगवती), पेडोट इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटीलीय नियोल्स्प्रॉस और आर्टिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक्स ने स्पॉटीलाइन का विनिर्माण शुरू किया है। पांच वर्षों की इस स्क्रीम में कंपनियों के 10.5 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन का अनुमान है जिसमें निर्यात की हिस्सेदारी 6.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस अवधि में आरंभ लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है जिसमें दो लाख प्रत्यक्ष और छह लाख अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल है।

गोदी पर रसकार ई-मार्केटप्लेस की प्रशंसा की,

गंध पर साल ने एक लाख मूल्य का कारोबार

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नंदेंद मोदी ने मात्र एक वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये की कीमत के लिए निर्यात के प्रशंसनरें ई-मार्केटप्लेस (जीएसई) की श्रेष्ठता की है। वित्र वर्ष 2021-22 में इस वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये खट्टी-बिक्री के बाइंडर इन्डिया के आईडी दर्ज किए जाने पर इसकी कीमत हुई। यह भी कहा कि जी-ई-एसई प्लेटफॉर्म रिशेक्षक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उम्मीदों को मजबूत बनाने का काम कर रहा है तैयारी में ऋण रुपये की तरफ से आईडी को 57 प्रतिशत एप्सएमई क्षेत्र से अकेले एक वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये की कीमत के आईडी प्राप्त किये हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में तृतीयपूर्ण वृद्धि है। जीईएसई प्लेटफॉर्म रिशेक्षक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उम्मीदों को मजबूत बना रहा है ताकि आईडी को बढ़ावा देने का 57 प्रतिशत इसी सेक्टर से आता है। स्थानीय संयोगिताओं में आज दलहन मजबूती लिए रहे हैं। दारों में लिवाली मुस्ती से भाव मंद बोले गए। चावल में खट्टी सुधार लिया रहा है।

गोदी पर रसकार ई-मार्केटप्लेस की प्रशंसा की,

गंध पर साल ने एक लाख मूल्य का कारोबार

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नंदेंद मोदी ने मात्र एक वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये की कीमत के लिए निर्यात के प्रशंसनरें ई-मार्केटप्लेस (जीएसई) की श्रेष्ठता की है। वित्र वर्ष 2021-22 में इस वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये खट्टी-बिक्री के बाइंडर इन्डिया के आईडी दर्ज किए जाने पर इसकी कीमत हुई। यह भी कहा कि जी-ई-एसई प्लेटफॉर्म रिशेक्षक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उम्मीदों को मजबूत बनाने का काम कर रहा है तैयारी में ऋण रुपये की तरफ से आईडी को 57 प्रतिशत एप्सएमई क्षेत्र से अकेले एक वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये की कीमत के आईडी प्राप्त किये हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में तृतीयपूर्ण वृद्धि है। जीईएसई प्लेटफॉर्म रिशेक्षक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उम्मीदों को मजबूत बना रहा है ताकि आईडी को बढ़ावा देने का 57 प्रतिशत इसी सेक्टर से आता है। स्थानीय संयोगिताओं में आज दलहन मजबूती लिए रहे हैं। दारों में लिवाली मुस्ती से भाव मंद बोले गए। चावल में खट्टी सुधार लिया रहा है।

गोदी पर रसकार ई-मार्केटप्लेस की प्रशंसा की,

गंध पर साल ने एक लाख मूल्य का कारोबार

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नंदेंद मोदी ने मात्र एक वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये की कीमत के लिए निर्यात के प्रशंसनरें ई-मार्केटप्लेस (जीएसई) की श्रेष्ठता की है। वित्र वर्ष 2021-22 में इस वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये खट्टी-बिक्री के बाइंडर इन्डिया के आईडी दर्ज किए जाने पर इसकी कीमत हुई। यह भी कहा कि जी-ई-एसई प्लेटफॉर्म रिशेक्षक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उम्मीदों को मजबूत बनाने का काम कर रहा है तैयारी में ऋण रुपये की तरफ से आईडी को 57 प्रतिशत एप्सएमई क्षेत्र से अकेले एक वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये की कीमत के आईडी प्राप्त किये हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में तृतीयपूर्ण वृद्धि है। जीईएसई प्लेटफॉर्म रिशेक्षक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उम्मीदों को मजबूत बना रहा है ताकि आईडी को बढ़ावा देने का 57 प्रतिशत इसी सेक्टर से आता है। स्थानीय संयोगिताओं में आज दलहन मजबूती लिए रहे हैं। दारों में लिवाली मुस्ती से भाव मंद बोले गए। चावल में खट्टी सुधार लिया रहा है।

गोदी पर रसकार ई-मार्केटप्लेस की प्रशंसा की,

गंध पर साल ने एक लाख मूल्य का कारोबार

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नंदेंद मोदी ने मात्र एक वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये की कीमत के लिए निर्यात के प्रशंसनरें ई-मार्केटप्लेस (जीएसई) की श्रेष्ठता की है। वित्र वर्ष 2021-22 में इस वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये खट्टी-बिक्री के बाइंडर इन्डिया के आईडी दर्ज किए जाने पर इसकी कीमत हुई। यह भी कहा कि जी-ई-एसई प्लेटफॉर्म रिशेक्षक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उम्मीदों को मजबूत बनाने का काम कर रहा है तैयारी में ऋण रुपये की तरफ से आईडी को 57 प्रतिशत एप्सएमई क्षेत्र से अकेले एक वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये की कीमत के आईडी प्राप्त किये हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में तृतीयपूर्ण वृद्धि है। जीईएसई प्लेटफॉर्म रिशेक्षक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उम्मीदों को मजबूत बना रहा है ताकि आईडी को बढ़ावा देने का 57 प्रतिशत इसी सेक्टर से आता है। स्थानीय संयोगिताओं में आज दलहन मजबूती लिए रहे हैं। दारों में लिवाली मुस्ती से भाव मंद बोले गए। चावल में खट्टी सुधार लिया रहा है।

गोदी पर रसकार ई-मार्केटप्लेस की प्रशंसा की,

गंध पर साल ने एक लाख मूल्य का कारोबार

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नंदेंद मोदी ने मात्र एक वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये की कीमत के लिए निर्यात के प्रशंसनरें ई-मार्केटप्लेस (जीएसई) की श्रेष्ठता की है। वित्र वर्ष 2021-22 में इस वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये खट्टी-बिक्री के बाइंडर इन्डिया के आईडी दर्ज किए जाने पर इसकी कीमत हुई। यह भी कहा कि जी-ई-एसई प्लेटफॉर्म रिशेक्षक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उम्मीदों को मजबूत बनाने का काम कर रहा है तैयारी में ऋण रुपये की तरफ से आईडी को 57 प्रतिशत एप्सएमई क्षेत्र से अकेले एक वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये की कीमत के आईडी प्राप्त किये हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में तृतीयपूर्ण वृद्धि है। जीईएसई प्लेटफॉर्म रिशेक्षक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उम्मीदों को मजबूत बना रहा है ताकि आईडी को बढ़ावा देने का 57 प्रतिशत इसी सेक्टर से आता

गुरु रंधावा और ज़ाहरा खान का नया ट्रैक 'तेरा साथ हो' रिलीज़

मुंबई। गुरु रंधावा और ज़ाहरा खान का नया ट्रैक तेरा साथ हो रिलीज़ हो गया है टी-सीरीज़ की डांस मेरी रानी की रिकॉर्ड तो डॉलर सफलता के बाद, एक बार फिर रहा। यह एक असाधारण डांस ट्रैक है जिसमें डांस मेरी रानी के बाद गुरु रंधावा और ज़ाहरा खान के आलू ट्रैक को सुनने हेतु तेरा साथ हो रहा। यह एक बार फिर रंधावा के साथ प्रयोग करते हुए गया है। इस गाने में गुरु रंधावा और कालीन ज़ाहरा खान और कालीन ज़ाहरा खान की ज़ाहरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिलता है। भूषण कुमार ने कहा, दर्शक डांस मेरी रानी के बाद गुरु रंधावा और ज़ाहरा खान के आलू ट्रैक को सुनने का बेस्टी से इंतजार कर रहे हैं तेरा साथ हो से बेहतर कोई गाना नहीं हो सकता है, जो एक असाधारण डांस ट्रैक है जिसमें फेंशन

संगीत जोड़ी गुरु रंधावा और ज़ाहरा खान का नया ट्रैक तेरा साथ हो रिलीज़ हो गया है टी-सीरीज़ की डांस मेरी रानी की रिकॉर्ड तो डॉलर सफलता के बाद, एक बार फिर रहा। यह एक असाधारण डांस ट्रैक है जिसमें डांस मेरी रानी पर खूब प्यार बरसाया है, गुरु और मैं एक बार फिर रंधावा के समक्ष तेरा साथ हो के साथ एक और हिट की उम्मीद कर रहे हैं। यह एक बार फिर रंधावा के साथ प्रयोग करता है, तेरा साथ हो इस ट्रैक को सुनते ही मुझे पसंद आ गया था। सेट पर गुरु, ज़ाहरा और कालीन के साथ इस ट्रैक को फिल्माना मानने हर पल पार्टी के समान हो। तनिष्क ने कहा, मैं तेरा साथ हो के साथ प्रयोग करता है और लिफाफे को आगे बढ़ाना चाहता था और गुरु रंधावा और ज़ाहरा एस खान वास्तव में इसे आगे स्तर पर ले गए।



हिट्ज़ म्यूज़िक के सॉन्ग 'सैंया' में नज़र आई चिंगांगदा सिंह और ऋषभ चौहान की जोड़ी



मुंबई। विनोद भानुशाली के चिंगांगदा के साथ ऋषभ चौहान नज़र आए। सैंया गाना विनोद भानुशाली के 'सैंया' में चिंगांगदा सिंह और ऋषभ चौहान की जोड़ी नज़र आयी।

असीस कौर द्वारा स्वरदङ्क किए गए गाने सैंया को रेस जैन - सैम द्वारा कपोर्ज में किया गया है। रेस और चिंगांगदा नज़र नहीं हैं। इस गाने के बोल लिखे हैं। इस गाने के म्यूज़िक वीडियो में भानुशाली के साथ ऋषभ चौहान की जोड़ी नज़र आयी।

चिंगांगदा सिंह ने कहा, जब सैंया गाना मैंने पहली बार सुना तो यह मेरे चिंगांगदा के साथ ऋषभ चौहान नज़र आयी। असीस कौर की आवाज़ ने इसे और भी रोचक बना दिया है। इस गाने की बाबू बहुत ही बेहतरीन है। यह निश्चित रूप से एक ऐसा ट्रैक है जिसमें ट्रैक होने की क्षमता है, और हमने इस म्यूज़िक वीडियो के साथ कुछ युगिक करने का प्रयास किया है।

हिट्ज़ म्यूज़िक के विनोद भानुशाली का मानना है कि, हिट्ज़ म्यूज़िक में हाँ अपने सिंगल्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार के धूनों को समझ लाना चाहते हैं। सैंया गाने का

सुनाई और चिंगांगदा के साथ ऋषभ चौहान नज़र आयी। असीस कौर की आवाज़ ने इसे और भी रोचक बना दिया है। इस गाने की बाबू बहुत ही बेहतरीन है। यह निश्चित रूप से एक ऐसा ट्रैक है जिसमें ट्रैक होने की क्षमता है, और हमने इस म्यूज़िक वीडियो के साथ कुछ युगिक करने का प्रयास किया है।

चिंगांगदा सिंह ने कहा, जब सैंया गाना मैंने पहली बार सुना तो यह मेरे चिंगांगदा के साथ ऋषभ चौहान नज़र आयी। असीस कौर की आवाज़ ने इसे और भी रोचक बना दिया है। इस गाने की बाबू बहुत ही बेहतरीन है। यह निश्चित रूप से एक ऐसा ट्रैक है जिसमें ट्रैक होने की क्षमता है, और हमने इस म्यूज़िक वीडियो के साथ कुछ युगिक करने का प्रयास किया है।

पैरों में हो रहे हैं ये बदलाव तो बढ़ा हो सकता है ब्लड शुगर लेवल, तुरंत करवा लें जाँच

प्रिया निशा

दायबिटीज़ से टिल की बीमारी, स्ट्रॉक आदि बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। दायबिटीज़ के नीजों को अपने खानापान और जीवनशैली का खास ख्याल रखिए। आज के इस लेख में हम आपको पैरों में दिखने वाले कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है।

आज के समय में दायबिटीज़ की समस्या आम हो गयी है। आजकल बुर्जुर्ज ही नहीं, युवा वर्ग भी लोग भी इस समस्या से प्रभावित हैं। दायबिटीज़ के अधिक समय शरीर से शरीरीनी से भी बढ़ाता है। जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल में भी इसके अधिक समय लग रहा होता है। आप आपके ब्लड शुगर लेवल के कारण शरीर में वैटेरिया फैलते हैं। इससे घाव भरने में अधिक समय कहाना है। आज के इस लेख में हम आपको पैरों में दिखने वाले कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों के सेवन से भी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल का जल्दी करना है। आप अंतिम तरीके से अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

आप के पैरों